



प्रेस विज्ञप्ति

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन

पुणे 27 जनवरी, 2022: बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रमुख बैंक है। बैंक ने 26 जनवरी, 2022 को अपने प्रधान कार्यालय में 73वें गणतंत्र दिवस का आयोजन किया। श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने राष्ट्र-ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान का गायन किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री ए. बी. विजयकुमार एवं कार्यपालक निदेशक श्री आशीष पाण्डेय के साथ सभी महाप्रबंधकगण, कार्यपालकगण एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए बलिदानों, सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्कृष्ट संविधान को तैयार करने में उनके द्वारा किए गए कठिन और समर्पित प्रयासों को याद किया और कहा कि राष्ट्र की अब तक की यात्रा उल्लेखनीय रही है तथा देश सभी क्षेत्रों में पूरी मजबूती से आगे बढ़ते जा रहा है। उन्होंने बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष-22 की तीसरी तिमाही के दौरान रु.3.15 लाख करोड़ का कारोबार हासिल करने और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मध्यम आकार का बैंक बनने पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी।

श्री राजीव ने इस अवसर पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से बैंक और राष्ट्र की वृद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने का आह्वान किया और 73वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दीं।

कार्यपालक निदेशक श्री ए.बी.विजयकुमार और कार्यपालक निदेशक श्री आशीष पाण्डेय ने बैंक के प्रति समर्पित सेवा और गणतंत्र दिवस समारोह में भव्य प्रदर्शन के लिए सुरक्षा गार्डों को सम्मानित किया।





बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

निगमित संप्रेषण व निवेशक संबंध
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, शिवाजीनगर, पुणे -5

टेलि. -020 :25614495, 25614366, 25514501 से 12 विस्तार. 495

फोटो कैप्शन: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव उनके बाईं ओर श्री वी. एन. कांबले, महाप्रबंधक, आयोजना; श्री आशीष पाण्डेय, कार्यपालक निदेशक, श्री ए. बी. विजयकुमार, कार्यपालक निदेशक बैंक ऑफ महाराष्ट्र.